

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का भवष्य

यह एडिटोरियल 16/08/2022 को 'द हट्रू' में प्रकाशित "Understanding ethanol blending" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के भवष्य और उससे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

अर्थव्यवस्था के वसितार, जनसंख्या वृद्धि, **बढ़ते शहरीकरण**, बदलती जीवन शैली और वयय शक्ति में वृद्धि के साथ देश की ऊर्जा मांग बढ़ती जा रही है। वर्तमान में सड़क परिवहन क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता का लगभग 98% **जीवाश्म ईंधन** (Fossil fuels) से और शेष 2% **जैव ईंधन** (Biofuels) द्वारा पूरा किया जाता है।

- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018** (National Policy on Biofuels 2018) इथेनॉल मशरति पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol- EBP) कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol blending) का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करती है।
- भारत जैसे तेज़ी से विकास करते देश के लिये ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना और एक उन्नतशील नमिन कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। पेट्रोल के साथ स्थानीय रूप से उत्पादित इथेनॉल के सम्मिश्रण से भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने, स्थानीय उद्यमों एवं किसानों को ऊर्जा अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
- जबकि इथेनॉल सम्मिश्रण CO₂ उत्सर्जन को कम कर सकता है, इथेनॉल उत्पादन के लिये अकुशल भूमि एवं जल उपयोग के साथ ही खाद्य सुरक्षा चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं।

इथेनॉल सम्मिश्रण से अभिप्राय

- इथेनॉल एक कृषि-उत्पाद है जो मुख्य रूप से गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होता है। यह चावल की भूसी या मक्का जैसे अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है।
 - वाहनों के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाकर इथेनॉल सम्मिश्रण या 'इथेनॉल ब्लेंडिंग' कहलाता है।
- वर्तमान में हमारे वाहनों में उपयोग किये जा रहे पेट्रोल में 10% इथेनॉल मशरति होता है।
 - भारत वर्ष 2030 तक इस अनुपात को 20% तक बढ़ाने का मूल लक्ष्य रखता था, लेकिन वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा इथेनॉल रोडमैप जारी किये जाने के साथ अब इस लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

भारत के लिये इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्त्व

- भारत ने वाहन निकास उत्सर्जन को कम करने के लिये पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण को अपनाया है।
 - वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा पेट्रोलियम का शुद्ध आयात 185 मिलियन टन रहा था। अधिकांश पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों द्वारा किया जाता है और इसलिये एक सफल 20% इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम देश के लिये प्रतिवर्ष 4 बिलियन डॉलर की बचत कर सकता है।
- नवीकरणीय इथेनॉल कंटेंट से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोकार्बन (HC) के उत्सर्जन में शुद्ध कमी आने की उम्मीद है।
 - इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में स्वयं स्वच्छ रूप से और अधिक पूर्ण रूप से जलता है जिससे उत्सर्जन की कमी आती है।
- इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश के तेल आयात में कमी आएगी जिस पर उल्लेखनीय मात्रा में मूल्यवान वदेशी मुद्रा का व्यय करना पड़ता है।
 - आकलन किया जाता है कि इथेनॉल का 5% सम्मिश्रण (105 करोड़ लीटर) लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रतिस्थापन कर सकता है।
- कृषि अवशेषों से अधिकाधिक इथेनॉल का उत्पादन किसानों की आय में वृद्धि करेगा और पराली जलाने की घटना में कमी लाकर वायु प्रदूषण को न्यूनतम करेगा।

इथेनॉल सम्मिश्रण से संबद्ध चुनौतियाँ

- **गन्ना उत्पादन की ओर बढ़ना:** 20% मशिरण दर प्राप्त करने के लिये देश के मौजूदा शुद्ध बुवाई क्षेत्र के लगभग दसवें भाग को गन्ना उत्पादन की ओर मोड़ना होगा।
 - किसी एक फसल के लिये भूमि की ऐसी आवश्यकता से अन्य फसलों पर दबाव पड़ने की संभावना है और इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि आ सकती है।
 - पहले से ही संकेत मिलते हैं कि गन्ना की खेती अधिक होती जा रही है और भारत सरकार ने मई 2022 में भारत मक्का शिखर सम्मेलन में मक्का का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया था।
- **भंडारण की कमी:** आवश्यक जैव-रफाइनरियों की वार्षिक क्षमता 300-400 मिलियन लीटर निर्धारित की गई है, जो अभी भी 5% पेट्रोल-इथेनॉल मशिरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
 - भंडारण मुख्य चिता का विषय होने जा रहा है, क्योंकि अगर E10 आपूर्ति को E20 आपूर्ति के साथ जारी रखना है तो भंडारण को अलग करना होगा जो फरि लागत बढ़ाएगा।
 - E10 ईंधन 90% पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल का मशिरण है।
 - E20 ईंधन 80% पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मशिरण है।
- **खाद्य असुरक्षा:** पेट्रोल टैंक तक पहुँचता चीनी और गन्ना उत्पादन फरि साथ-साथ हमारे खाद्य, पशुओं के चारे, गोदामों में बफर स्टॉक या नरियात हेतु पर्याप्त नहीं होगा।
 - भारत के लिये एक साथ घरेलू खाद्य आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करना, अनाज के लिये एक नरियात बाज़ार बनाए रखना और आने वाले वर्षों में अपेक्षित दर पर अनाज को इथेनॉल में बदलना आसान नहीं होगा। यह ऐसा विषय है जिस पर लगातार नगरानी रखने की आवश्यकता होगी।
- **राज्यों के बीच इथेनॉल परिवहन की अस्थिरता:** इथेनॉल के अंतर-राज्य परिवहन में अवरोध है क्योंकि सभी राज्यों द्वारा उद्योग (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1951 के संशोधित प्रावधानों को एकसमान रूप से लागू नहीं किया गया है।
 - फीडस्टॉक या उद्योगों की अनुपलब्धता के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में इथेनॉल सम्मशिरण को नहीं अपनाया गया है।
 - अखिल भारतीय स्तर पर इथेनॉल मशिरति ईंधन और वाहनों के विकास के लिये इस चिता को दूर किया जाना चाहिये।
- **नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कोई कमी नहीं:** चूँकि इथेनॉल का पेट्रोल की तुलना में पूरी तरह से दहन होता है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उत्सर्जन नहीं करता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कोई कमी नहीं आती जो एक प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक है।

भारत में इथेनॉल सम्मशिरण को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सरकारी पहल

- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018
- [E100 पायलट प्रोजेक्ट](#)
- [प्रधानमंत्री जी-वन \(JI-VAN\) योजना 2019](#)
- प्रयुक्त कुकिंग ऑइल का पुनः उपयोग (Repurpose Used Cooking Oil- RUCO)

आगे की राह

- **इथेनॉल ब्लेंड की एकसमान उपलब्धता सुनिश्चित करना:** अखिल भारतीय उपयोग को संकषम करने के लिये इथेनॉल ब्लेंड को अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी ताकि देश में इथेनॉल ब्लेंड की एकसमान उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- **उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देना:** गैर-खाद्य फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन (जिसमें 'उन्नत जैव ईंधन' / Advanced Biofuels के रूप में जाना जाता है और जिसमें दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन शामिल हैं) की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि खाद्य उत्पादन प्रणाली में कोई अवरोध उत्पन्न न किया जा सके।
 - चावल की भूसी, गेहूँ की पराली, मकई के गोले और ऐसी अन्य सामग्री से उत्पादित इथेनॉल दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल की श्रेणी में आता है।
- **आपूर्ति संवृद्धि:** विभिन्न फीडस्टॉक्स से इथेनॉल उत्पादन के लिये योजनाएँ और जैव-रफाइनरियों एवं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन।
 - बेहतर कार्यान्वयन के लिये उच्च इथेनॉल मशिरणों हेतु इंजनों को अनुकूलित करना और स्थायित्व परीक्षण तंत्र सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **मंजूरी के लिये एकल खड़की:** इथेनॉल उत्पादन हेतु नई और वसितारति परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी देने के लिये एकल खड़की मंजूरी प्रणाली तैयार की जानी चाहिये।
- **इथेनॉल के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना:** वसितारति/नई इथेनॉल क्षमताओं में अनुमेयता लाने और उद्यमियों द्वारा नविश को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार तेल विपणन कंपनियों द्वारा खरीद हेतु वृद्धि उपबंध (escalation clause) के साथ कुछ वर्षों के लिये इथेनॉल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती है।
 - पूर्वोत्तर भारत में नविशकों को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।
- **खाद्य सुरक्षा और इथेनॉल सम्मशिरण के बीच संतुलन रखना:** भारत की जैव ईंधन नीति यह निर्धारित करती है कि ईंधन की आवश्यकताओं को खाद्य आवश्यकताओं के साथ प्रतिसिपर्द्धा से बचना चाहिये और केवल अतिरिक्त खाद्य फसलों का उपयोग ही ईंधन उत्पादन के लिये किया जाना चाहिये।
 - फसल अवशेषों से इथेनॉल का उत्पादन तभी एक अच्छा विकल्प साबित होगा।

अभ्यास प्रश्न: भारत में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में इथेनॉल सम्मशिरण की भूमिका की व्याख्या करें और इसके कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षो के प्रश्न (PYQs):

चार ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिये गए हैं। उनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिये की जा सकती है? (वर्ष 2010)

- (A) जटरोफा
- (B) मक्का
- (C) पोंगामयिा
- (D) सूरजमुखी

उत्तर: (B)

जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीतिके अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए नमिन में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? (वर्ष 2020)

1. कसावा
2. गेहूँ के टूटे दाने
3. मूंगफली के बीज
4. चने की दाल
5. सड़े हुए आलू
6. मीठे चुकंदर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1, 2, 5 और 6
- (B) केवल 1, 3, 4 और 6
- (C) केवल 2, 3, 4 और 5
- (D) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (A)